



इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम—नवरत्न)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise-Navratna)

"CIN-L74899DL1999GO1101707", E-mail : info@irctc.com, Website: www.irctc.com

No. 2019/IRCTC/CS/ST.EX/356

August 08, 2025

BSE Limited (Through BSE Listing Centre) 1 st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 542830	National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS) “Exchange Plaza”, C-1, Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Scrip Symbol: IRCTC
--	--

Sub: Newspaper Publication regarding 26th Annual General Meeting, e-voting and dividend information.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act and SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with circulars issued by MCA and SEBI from time to time, please enclosed herewith copies of newspaper publication regarding 26th Annual General Meeting, e-voting and dividend information.

Please take note of above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully,



For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)


(Suman Kalra)

Company Secretary and Compliance Officer

Membership No: FCS 9199

Encl: as above

		<h1>SHIVA TEXYARN LIMITED</h1>				
Regd. Office : 52, East Bashyakaralu Road, R.S.Puram, Coimbatore – 641 002. Website : www.shivatex.co.in CIN : L65921TZ1980PLC000945		EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2025 (Rs.in lakhs Except earnings per share data)				
Sl. No	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended
		30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)
1	Total Income from operations	7,638.76	6,086.27	32,451.92	7,657.03	6,095.07
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	270.35	178.66	945.87	288.62	187.46
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	270.35	178.66	945.87	288.62	187.46
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	227.25	126.80	1,178.34	245.52	135.60
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	227.25	126.80	1,221.08	245.52	135.60
6	Equity Share Capital	1,296.27	1,296.27	1,296.27	1,296.27	1,296.27
7	Earnings per Share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations)					
	i) Basic	1.75	0.98	9.09	1.89	1.05
	ii) Diluted	1.75	0.98	9.09	1.89	1.05
Note : The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2025 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations And Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com , www.nseindia.com and Company's website www.shivatex.co.in and by scanning given QR Code.						
Place : Coimbatore Date : 07.08.2025				For SHIVA TEXYARN LIMITED S K SUNDARAMAN Managing Director DIN : 00002691		

		Varroc Engineering Limited Registered and Corporate Office: L-4, MIDC Area, Waluj, Chhatrapati Sambhaji Nagar (Erstwhile Aurangabad) 431 136, Maharashtra CIN : L28920MH1988PLC047335 Tel : +91 240 6653 700/6653 699, Fax : +91 240 2564 540 Web: www.varroc.com, E-mail : investors@varroc.com							
		Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025							
		(Rs. in Million)							
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)
1	Total income	18,465.78	19,299.13	16,983.95	73,962.06	20,326.10	21,040.40	19,024.05	81,717.66
2	Profit / (Loss) for the period before tax and exceptional item	1,179.88	1,359.62	625.79	3,806.88	827.55	1,036.71	559.90	3,165.96
3	Profit / (Loss) for the period before tax	1,179.88	1,264.20	625.79	3,598.76	1,439.49	472.52	559.90	1,692.59
4	Profit / (Loss) for the period	866.28	1,056.62	451.11	2,758.50	1,074.20	229.90	340.69	696.76
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	838.02	1,060.28	451.11	2,762.16	644.62	220.42	255.88	764.57
6	Paid-up equity share capital (face value of Re.1)	152.79	152.79	152.79	152.79	152.79	152.79	152.79	152.79
7	Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet	-	-	-	17,724.65	-	-	-	15,497.85
8	Basic and diluted earning per equity share (Nominal value per share: Re. 1) (not annualised)	5.67	6.92	2.95	18.05	6.88	1.35	2.12	4.01
Notes:									
1	The above Unaudited Standalone and Consolidated interim financial information of the Company for the quarter ended June 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 07, 2025.								
2	The Group has received a settlement offer from an overseas party alleging breach of agreement in respect of certain income received by the Group recognised under Revenue from operations (Rs. 209.89 million during the current quarter and Rs. 231.82 million during the year ended March 31, 2025). The Group believes that it has a strong case and will take appropriate actions as necessary to protect its interests. The auditors in their review report have included a qualification in respect of this matter.								
3	On July 7, 2025, the Group received an intimation from ICC International Court of Arbitration with respect to a Request for Arbitration initiated by OPmobility Lighting Holding, France (Erstwhile PO Lighting Systems). The request pertains to certain alleged breaches of covenants under the Securities Purchase Agreement executed between the parties on April 29, 2022, and subsequently amended on October 5, 2022, May 12, 2023, and June 15, 2023. Claims in respect of some of the breaches have been quantified at US\$ 66.41 million plus legal costs while for others no quantification has been provided. The Group is evaluating the matter and exploring legal and contractual remedies. It intends to contest the claims and take appropriate steps to protect its interests. Based on a legal opinion obtained, the Group believes that it has grounds to defend against the said allegations and accordingly no provision has been considered in respect of this matter in these results.								
4	Pursuant to provisions of Section 230-232 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company on May 17, 2024 had approved the scheme of amalgamation of Varroc Polymers Limited ("VPL") (a wholly owned subsidiary of the Holding Company) with Varroc Engineering Limited ("VEL") (the Holding Company) with appointed date of April 01, 2024 ("the Scheme"). National Company Law Tribunal ("NCLT") approved the above scheme vide its order dated January 10, 2025 and the merger became effective on February 01, 2025 on filing of the NCLT order with the Registrar of Companies. The merger has been accounted as business combination of entities under common control as per Appendix C to Ind AS 103- Business Combinations. The aforesaid scheme has no impact on the Consolidated Financial Results of the Group since the scheme of merger was between the Holding Company and its wholly owned subsidiary, except for tax expense for the quarter ended June 30, 2024 which has been restated to include the effects of this merger.								
5	Exceptional items for the periods presented in the consolidated results include following:								
a)	On December 11, 2024, the Group received an order from ICC International Court of Arbitration ("ICC") in respect of the ongoing arbitration between Varroc Corp Holding B.V. ("VCHBV") jointly with Varroc Engineering Limited and Beste Motor Co. Ltd. ("TYC BVI Entity") jointly with TYC Brother Industrial Co. Ltd ("TYC Group") and Varroc TYC Corporation ("VTC" or "China JV"), wherein VCHBV has been directed to transfer its 50% shareholding in TYC to TYC BVI Entity for a consideration of RMB 310.50 million. Accordingly, the Group assessed that its investment in VTYC (a joint venture accounted for under the equity method) satisfies the criteria prescribed under Ind AS 105 'Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations' for classification as 'Assets held for sale' and had written down this investment to Rs. 3,395.15 million which is its fair value less costs to sell. The resulting estimated impairment loss of Rs. 10.34 million and Rs. 806.82 million for the quarter and year ended March 31, 2025 respectively was disclosed as an Exceptional item in the financial results. The Group received above consideration on May 07, 2025 and transferred its investments in China JV. On account of such disposal, the cumulative exchange gains pertaining to China JV of Rs. 611.94 million, which had been recognised in Other Comprehensive Income and accumulated in foreign currency translation reserve during the previous periods, have been reclassified to the Statement of Profit or Loss. These have been disclosed as an exceptional item and reduced from Other Comprehensive Income for the quarter ended June 30, 2025.								
b)	On April 21, 2025, the Group received final order from ICC in respect of the above arbitration wherein the Group was directed to pay to TYC Group legal costs pertaining to the arbitration incurred by TYC Group amounting to Rs. 439.91 million. The Group recognised a provision for this cost as at March 31, 2025 and the same was disclosed as an Exceptional item in the financial results for the quarter and year ended March 31, 2025.								
c)	Exceptional item also included estimated expenses directly attributable to merger of VPL with the Company amounting to Rs. 83.32 million and Rs. 196.02 million for the quarter and the year ended March 31, 2025 respectively.								
d)	KTM AG group, one of the customer of the Group, filed for insolvency and the Court admitted restructuring with self-administration in Austria. Considering these developments, the Group recognised a provision for expected credit loss of trade receivables of KTM AG Group amounting to Rs. 30.62 million in the quarter and year ended March 31, 2025.								
6	a) On November 5, 2024, the Group received a GST Order from Additional Commissioner of CGST & Central Excise for appropriation of GST dues amounting to Rs. 629 million along with equivalent penalty and applicable interest relating to inappropriate classification of certain goods supplied during the period from July 1, 2017 to September 30, 2023. The Group has paid the principal demand, however considering merits of the case, management believes that it has grounds to successfully defend and litigate the GST Order with respect to applicable interest and penalty for the aforesaid period. The Group has initiated appellate proceedings against this GST Order, pending conclusion of which no adjustments have been made in respect of this matter in the financial results for the quarter ended June 30, 2025. b) On January 03, 2025, the Group received a GST Order from Commercial Tax Officer (Divisional GST office, Karnataka) consisting of demand for GST dues amounting to Rs. 0.03 million along with interest of Rs. 302.67 million and penalty of Rs. 564.19 million relating to inappropriate classification of certain goods supplied during the period from July 1, 2017 to September 30, 2023. The Group has paid the principal demand, however, considering merits of the case, management believes that it has grounds to successfully defend and litigate the GST Order with respect to the interest and penalty for the aforesaid period. The Group has initiated appellate proceedings against this GST Order, pending conclusion of which no adjustments have been made in respect of this matter in the financial results for the quarter ended June 30, 2025.								
7	Additional information on Standalone Financial Results is as follows:								
		(Rs. in Million)							
Particulars	Quarter ended		Year ended						
	June 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2025 (Audited)					
Securities Premium Account	13,340.72	13,340.72	13,340.72	13,340.72					
Net worth	18,715.46	17,877.44	15,566.40	17,877.44					
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	7,267.67	8,557.14	10,545.93	8,557.14					
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-					
Debt Redemption Reserve	-	-	-	-					
Debt Equity Ratio (No. of times)	0.3								



Annual Report 2024-25














STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on August 07, 2025, approved the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").

The unaudited Financial Results along with the Limited Review Report, have been hosted on the Company's website at <https://www.dreamfolks.com/results-and-reports.html> and can be accessed by scanning the QR Code.

Note: The above information is in accordance with Regulation 47(1) read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Place: Gurugram
Date: August 07, 2025

For and on behalf of the Board
DreamFolks Services Limited
Sd/-
Chairperson and Managing Director
DIN: 08849052

Dreamfolks Services Limited, Regd. Office: 26, DDA Flats, Shivakli Road, Panchsheel Park, South Delhi, New Delhi-110017
Tel. 0124-4037300, **Email:** investor.support@dreamfolks.in, **Website:** www.dreamfolks.com, **Corporate Identification No. (CIN):** L21906DL2008PLC177191


Lounge Access


Meet & Assist


Eco Sunkiss


F&B Offerings



Airport Transfers


Travel Insure


Golf



VISA Services


eSIM



CKA Birla Group

ORIENT ELECTRIC LIMITED
CIN: L11000OR2016PLC025892
Registered Office: Plot No. 7, Bhoirangi, Bhubaneswar, Odisha-751012
Corporate Office: 240, Okhla Industrial Estate, Phase -III, Okhla New Delhi - 110020
Tel: 011-40507000
E-mail: investor@orientelectric.com **Website:** www.orientelectric.com



NOTICE

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares


Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MRD-PPD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of six months from July 07, 2025, to January 06, 2026, to facilitate re-lodgement of transfer request of physical shares.

The above-mentioned special window is specifically open for such transfer request/cases which were lodged prior to deadline of April 01, 2019, and the same were rejected/rejected/not attended due to deficiencies in documentation or were not processed due to any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at K/Fs M/Kin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramunda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500032. (Tel No: 1800-309-4001) within stipulated period.

All the shareholders are requested to update their E-mail Id(s) with Company / RTA / Depository Participants.

For Orient Electric Limited
Sd/-
Diksha Singh
Company Secretary
 (ICSI Membership No. 1448958)



New Delhi
August 07, 2025

THE BUSINESS DAILY

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

FOR DAILY BUSINESS

संबंध बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
१९११ से आपके लिए "केवल" - "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

On the eve of the 144th Birth Anniversary of our father Sir Sorabji Pochkhanawala

We thank our **Stakeholders** for their **continued patronage.**

Our Offerings

- New Savings & Current Deposits**
 - Cent Queen - Specially crafted for women
 - Cent Salary - More offerings per account
 - Cent Vyapaar - Keeps you digitally ahead
- Wealth Management**
 - At a click, access our Wealth Management Products (easy and fast)
 - Life Insurance, General Insurance, Mutual Funds, Demat, SIP
- Women Empowerment**
 - Cent Grih Lakshmi
 - Cent Queen
 - Cent EV 2 Wheeler
 - Stand - Up India
 - 90 Dedicated women branches pan India

Attractive and hassle-free Retail and MSME loans

www.centralbankofindia.co.in | Follow us on: Centralbankofindia |

[illegible]

 <div> <h1>CL</h1> <p>educate</p> </div>	
<p align="center">CL EDUCATE LIMITED CIN: L74899DL1996PLC425162</p>	
<p align="center">Registered and Corporate Office: A-45, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi – 110044 Tel: +91 (11) 4128 1100, Fax: +91 (11) 4128 1101, E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com</p>	
<p align="center">STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025</p>	
<p>The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 07, 2025, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.</p>	
<p>The Unaudited Financial Results along with the Limited Review Report (with unmodified opinion) have been posted on the Company's website at https://www.cleducate.com/quarterly-results.html and can be accessed by scanning the following QR code.</p>	
	
<p align="right">For CL Educate Limited Sd/- Nikhil Mahajan Executive Director and Group CEO Enterprise Business DIN-0003540</p>	
<p>Place: New Delhi Date: Aug 07, 2025</p>	

INDIAN RAILWAYS CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Navratna CPSE)
CIN: L74698DL1999GOI01973

Registered Office: 4th Floor, Tower-D, World Trade Centre, Naurail Nagar, New Delhi-110029, India
Website: www.irctc.com, **Email ID:** investors@irctc.com, **Telephone:** 011-26181550/51

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND DIVIDEND INFORMATION

- Notice is hereby given that that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on Saturday, August 30, 2025 at **12:30 PM (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice convening the 26th AGM, in compliance with the applicable provisions Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other relevant Circulars issued by the SEBI from time to time.
- As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copy of the Notice convening 26th AGM together with the Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to all members of the Company through electronic mode, whose email ids are registered with the RTA/Depositories in accordance with MCA/SEBI listings as mentioned above. The dispatch of the notice along with Annual Report for FY 2024-25 through e-mails has been completed on August 07, 2025. Further, pursuant to Regulation 36(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a link providing the web-link to access the Annual Report, including the exact path, is being sent to those members who have not registered their email address with the Company/RTA/Depositories/Depository Participants.
- Detailed instructions to the Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 26th AGM through VC/OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. Members shall hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the AGM can log on to the e-voting website www.evotingindia.com by using their credentials. Members are requested to read instructions contained in regard to the Notice.
- Notice and Annual Report of the Company are available at Company's website at www.irctc.com and on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (www.bseindia.com) and www.nseindia.com, respectively, and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.
- The Company has engaged the services of CSCS (as the agency to provide e-voting facilities). The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity shares of the Company as on **Saturday, August 23, 2025**.
- Members may attend the 26th AGM through one-way live "Webcast" on Saturday, August 30, 2025 from 12:30 PM onwards till conclusion of the AGM, by using their remote e-voting credentials.
- The facility for voting shall also be made available during the 26th AGM and Members who have not already cast their vote through e-voting shall be able to vote through the same system during the 26th AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 26th AGM and shall not be entitled to cast their vote again.
- The members are informed that:
 - a) The remote e-voting process commences on **Wednesday, August 27, 2025 at 9.00 AM (IST)** and ends on **Friday, August 29, 2025 at 5.00 PM (IST)**;
 - b) Remote e-voting shall not be allowed beyond **5.00 PM (IST) on Friday, August 29, 2025**;
 - c) Any person whose name appears in the register of Members/beneficial owners as on the **cut-off date i.e. Saturday, August 23, 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, and as well as e-vote during the 26th AGM;
 - d) Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of meetings and holding shares as on the **cut-off date Saturday, August 23, 2025** may obtain the user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cscindia.com;
 - e) The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the vote on resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; and
- Manner of registering/updating KYC details / email address:
 - a) Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending relevant documents to the RTA of the Company i.e. Alankrit Assignments Limited, Alankrit House, 4/E/2, Jhandewalan Extension New Delhi-110055, or scanned copy at kycupdate@alankrit.com through their registered mail id;
 - (b) Members, holding shares in dematerialized mode are requested to contact their Depository Participant (DP) and register their email address and bank account details in your demat account, as per the process advised to you DP.
- The Board of Directors of the Company at their meeting held on May 28, 2025 has recommended a final dividend of ₹1.00/- per share on the face value of ₹2/- per share, subject to approval of the Shareholders at the 26th AGM. In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subjected to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In order to enable users to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the relevant communication in accordance with the provisions of the Act. A detailed note regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2024-25" is hosted at the website of the Company, which may be accessed by clicking on Web-link-<https://www.irctc.com/question-to-shareholders-for-updation-of-their-email-address.html>. For more details please refer to the Notes to the Notice of 26th AGM.
- The Company has fixed **Friday, August 22, 2025**, as the "**Record Date**" for determining entitlement of members for final dividend for the financial year ended March 31, 2025, if approved at the AGM.
- Ms. Barkha Mishra (M. No. 4816 and C. P. No. 32222), Practice Manager/Company Secretary has been appointed as "Scrutinizer" to scrutinize the remote e-voting process and e-voting during the AGM, in a fair and transparent manner.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed Mr. Rakesh Dahiya, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, W-29, Fifth Floor, Marathon Futuron, Matiallal Mill Compounds, N. M Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai-400013 or send an email helpdesk.evoting@cdslindia.com or call/tel/fax no. 91-22-23612001.
- Members are requested to read carefully all the Notes set out in the Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM.

By order of the Board of Directors
(Signature)

Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: August 07, 2025

Page no. on 7900123123

Ministry of Culture
Government of India

Notice Inviting Tender

Request for Proposal for Selection of a Specialist Consultant for Content Development for the **Yuge Yugen Bharat Museum**, New Delhi has been floated on 05 August 2025 by Ministry of Culture, Government of India.

Interested bidders may see details on e-procure.gov.in and india.culture.gov.in Last date for bid submission is **26 August 2025**.

CBC/GP/10/1/10014/2526

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking
(OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

TENDER NOTICE

E-tender is Re-invited for the supply of following items.

(1) 80349.

Note: For more details log on to website mahatenders.gov.in

PRO/AM/M/5/02/2025 GENERAL MANAGER

SML ISUZU LIMITED

Registered Office:
Village Anson, District Shahdol, Singh Nagar (Nawanshahr), Punjab-144533
Corporate Identification Number (CIN) U50101PB1983PC000516
Tel No: +91 72 2647700-2 Website: www.smlisuzu.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-DEEDING OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MRSD/MRSD/P/DP/RC/2025/57 dated 2nd July, 2025, a special window has been opened from 7th July, 2025 till 8th January, 2026, only for re-deeding of transfer deed which were originally lodged prior to the deadline of 1st April, 2019 and rejected / returned / not attended, due to deficiency in the documents / process / or otherwise missed the extended deadline of 31st March, 2021 for re-lodging their documents for transfer of securities.

Investors who have missed the deadline for re-lodging their documents for transfer of securities are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/S MCA Share Transfer Agent Limited, at email ID helpdesk@mcasharetransfer.com or at their office at 179-180, DSECC SEZ, 3rd Floor, Outer Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 or the Company at email ID investor@smlisuzu.com for further assistance.

The securities in physical mode that are lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company or RTA) shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order and due process is followed for such transfer-cum-demat requests. The lodger must have a demat account and shall provide its Client Master Id along with the transfer documents and share certificate while re-lodging the documents for transfer with RTA.

Transfer requests submitted after 8th January, 2026, will not be accepted by the Company/RTA.

For SML ISUZU LIMITED
PANKESH MADHAN
Company Secretary
ACS-31296

Date: 07.08.2025
Place: Chandigarh

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY
PATNA-800014 (BIHAR)
Website: www.basu.org.in

ADMISSION NOTICE

Advt. No.: 01NAP/BASU/2025 Date: 07/08/2025

Bihar Animal Sciences University, Patna invites application for admission to various newly introduced academic programmes at Bihar Veterinary College, Patna, i.e. **Diploma in Paraveterinary Sciences, Post Graduate Diploma, Certificate Courses, Advance Training Course and Online Short Courses.**

Details of application process, fee etc., are available on the website www.basu.org.in

Important Dates for Admission

Event	Paraveterinary Sciences	Other Courses (PG Diploma, Certificate, Training, Online)
Opening date for applications	11 August 2025	11 August 2025
Last date for application submission	31 August 2025	31 August 2025
Declaration of Result	06 September 2025	06 September 2025
First Counselling	08 September 2025	-
Last and Final Counselling	10 September 2025	-
Commencement of classes	15 September 2025	To be notified later on the university website

Sd/-
Registrar

टीएचडी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
(Incorporated in India under the Companies Act, 1956)
(CIN: U40203UR1985GO000922)

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]
Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total Income from Operations	1079.59	258.12	2712.38	1079.67	258.46	2713.45		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	180.60	(41.96)	850.22	180.11	(42.22)	847.65		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	180.60	(41.96)	850.22	180.11	(42.22)	847.65		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	144.24	(36.12)	732.91	143.88	(39.32)	730.95		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	144.47	(36.15)	724.95	144.11	(39.35)	722.99		
6	Paid up Equity Share Capital	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88		
7	Other equity (excluding Revaluation Reserve)	7535.86	6841.54	7383.46	7531.25	6836.80	7379.32		
8	Securities Premium Account	-	-	-	-	-	-		
9	Net worth	11189.76	10507.52	11044.29	11184.35	10504.68	11040.15		
10	Paid up Debt Capital	22495.13	18169.47	22048.48	22515.08	18229.57	22109.22		
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-		
12	Debt Equity Ratio	2.00	1.73	2.00	2.01	1.74	2.00		
13	Earnings Per equity share (of Rs. 1000/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
13.1	Basic: (In Rs)	39.25	(10.67)	199.93	39.27	(10.71)	199.53		
13.2	Diluted: (In Rs)	39.25	(10.67)	199.93	39.27	(10.71)	199.53		
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-		
15	Debt Redemption Reserve	387.45	285.78	362.84	387.45	285.78	362.84		
16	Debt Service Coverage Ratio	1.42	0.48	1.92	1.41	0.47	1.89		
17	Interest Service Coverage Ratio	2.43	1.18	3.51	2.43	1.18	3.50		

Notes:
1. The above results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on 06.08.2025.
2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange(s) in accordance with Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the Financial Results is available on the websites of the stock exchange(s) and THDCIL https://www.thdcil.com/content/dam/THDCIL/60802025195959_Outcome.pdf and <https://www.bseindia.com/xml-data/corporate/attach/level060804-5054-435474-03916984158.pdf>
3. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made in the stock exchange(s) (NSE and BSE) and can be accessed on the https://www.thdcil.com/content/dam/THDCIL/60802025195959_Outcome.pdf and <https://www.bseindia.com/xml-data/corporate/attach/level060804-5054-435474-03916984158.pdf>

For and on Behalf of Board of Directors
Sipan Kumar Gang, Director (Finance)
DIN: 10748205

Date: 06.08.2025
Place: Rishikesh

Generating Power ... Transmitting Prosperity ...

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Navratna CPSE)
CIN: L74890L1999GOH10707

Registered Office: 4th Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029, India
Website: www.irtco.com, Email: investor@irtco.com, Telephone: 011-26181550/51

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND DIVIDEND INFORMATION

1. Notice is hereby given that that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited ("the Company") will be held on **Saturday, August 30, 2025 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice convening the 26th AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with other relevant Circulars issued by MCA and SEBI from time to time.

2. As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules 2014, the electronic copies of the Notice convening 26th AGM together with the Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to all the members of the Company through electronic mode, whose email ids are registered with the RTA/Depositories in accordance with MCA/SEBI circulars as mentioned above. The dispatch of the notice along with Annual Report for FY 2024-25 through e-mails has been completed on August 07, 2025. Further, pursuant to Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a portal providing the web-link to access the Annual Report, including the exact path, is being sent to those members who have not registered their email address with the Company/RTA/Depositories/Depository Participants.

3. Detailed instructions to the Members for registration of their email addresses, manner of participating in the 26th AGM through VC/OAVM including manner of e-voting is set out in the Notice of the AGM. Members who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses and wish to participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the AGM can log on to the e-voting website www.evotingindia.com by using their credentials. Members are requested to read instructions contained in this regard in the Notice.

4. Notice and Annual Report of the Company are available at the Company's website at www.irtco.com and on the website of the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

5. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity shares of the Company as on **Saturday, August 23, 2025**.

6. Members may attend the 26th AGM through one-way Live "Webcast" on Saturday, August 30, 2025 from 12:30 PM onwards till conclusion of the AGM, by using their remote e-voting credentials.

7. The facility for voting shall also be made available during the 26th AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to vote through e-voting system during the 26th AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 26th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

8. The members are informed that:

a) The remote e-voting shall commence on **Wednesday, August 27, 2025 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Friday, August 29, 2025 at 5.00 P.M. (IST)**;

b) Remote e-voting shall not be allowed between **5.00 P.M. (IST) on Friday, August 29, 2025**;

c) Any person whose name appears in the register of Members/beneficial owners as on the **cut-off date i.e., Saturday, August 23, 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, and as well as e-voting system during the 26th AGM;

d) Any person who becomes member of the company after dispatch of the notice of meeting and holding shares as on the **cut-off date Saturday, August 23, 2025** may obtain the user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com;

e) The remote e-voting module will be disabled after the date and time as aforementioned. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently;

9. Manner of registering/ updating KYC details / email address:

(i) Members holding physical shares are requested to register/update their email addresses and bank account details by sending relevant documents to the RTA of the Company i.e., Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewali Extension New Delhi-110055, or scanned copy on email at kycupdate@alankit.com through their registered mail id;

(ii) Members, holding shares in dematerialized form are requested to contact their Depository Participant (DP) and register their email address and bank account details in their demat account, as per the process advised by your DP.

10. The Board of Directors of the Company at their meeting held on May 28, 2025 has recommended a final dividend of ₹1.20/- per share on the face value of ₹2/- per share, subject to approval of the Shareholders at the 26th AGM. In accordance with Finance Act, 2020, payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, members are requested to submit the relevant documents in accordance with the provisions of the Act. A detailed notice regarding "Communication w.r.t. Tax Deducted at Source (TDS) on Final Dividend for the Financial Year 2024-25" is hosted at the website of the Company, which may be accessed by clicking on Web-link, <https://www.irtco.com/request-to-shareholders-for-updation-of-their-email-address.html>. For more details, please refer to the Notice to the Notice of 26th AGM.

11. The Company has fixed **Friday, August 22, 2025**, as the "Record Date" for determining entitlement of members for final dividend for the financial year ended March 31, 2025. If approved at the AGM.

12. Ms. Balka Sharma (M. No.: 4816 and C.P. No.: 3222), Practising Company Secretary has been appointed as "Scrutinizer" to scrutinize the remote e-voting process and e-voting during the AGM. In a fair and transparent manner.

13. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dahi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mahatma Jyoti Bapu Computer, N.M. Joshi Marg, Lower Panel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

14. Members are requested to read carefully all the Notices set out in the Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting at the AGM.

By order of the Board of Directors
(Suman Kalra)
Company Secretary and Compliance Officer

Date: New Delhi
Date: August 07, 2025

NTPC Green Energy Limited
CIN: L40100DL2025CG009602

Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
Tel. no.: 011-24362577 Fax: 011-24360241 Email: nge@ntpc.co.in Website: www.ntpc.co.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF NTPC GREEN ENERGY LIMITED IN RESPECT OF THE 3rd ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that 3rd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on **Thursday, 28th August 2025 at 10.30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 07th August, 2025.

2. In line with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, Annual Report including Notice of AGM, Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report for the financial year ended 31st March, 2025 has been sent to the shareholders of the Company through email at their registered e-mail addresses. Notice of the 3rd AGM and Annual Report are available on the Company's website viz. www.ntpc.co.in and on website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. Notice shall also be available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. <https://www.evotingindia.com/>.

3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its shareholders enabling them to cast their vote electronically for the resolutions as set in the Notice of AGM through the e-voting services provided by NSDL.

4. The remote e-voting period will commence on **Sunday, 24th August, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, 27th August, 2025 at 5:00 P.M. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instruction for joining the meeting, remote e-voting and e-voting during the AGM are contained in the Notice of AGM.

5. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e., Thursday, 21st August 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. The voting rights of the shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company. Shareholders participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Any person holding shares in physical mode or a person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice of the AGM is sent and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote.

7. A member may participate at the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast their vote again. Members may note that the facility of e-voting shall be made available at the AGM.

8. The Board of Directors has appointed Shri Amit Kaulshar or in his absence Shri Akshay Kumar Tripathi from M/s A. Kaulshar & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer, for conducting the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

9. Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case you have any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or call on: 022-4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

For and on behalf
NTPC Green Energy Limited
Sd/-
(Manish Kumar)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 06.08.2025

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L40101DL1975GO1007966

Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110003. Tel. no.: 011-24360959; Fax: 011-24360241.
Email: ntpc@ntpc.co.in; Website: www.ntpc.co.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF NTPC LIMITED IN RESPECT OF THE 49th ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that 49th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on **Friday, 29th August 2025 at 10.30 A.M. (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 07th August 2025.

2. In line with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, the Integrated Annual Report including Notice of 49th AGM (AGM Notice), Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report for the financial year ended 31st March, 2025 has been sent to the shareholders of the Company through emails at their registered e-mail addresses. Notice of the 49th AGM and Integrated Annual Report are available on the Company's website viz. www.ntpc.co.in and on website of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. Notice shall also be available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. <https://www.evotingindia.com/>.

3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Shareholders enabling them to cast their vote electronically for the resolutions as set in the AGM Notice through the e-voting services provided by NSDL.

4. The remote e-voting period will commence on **Monday, 25th August 2025 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, 28th August 2025 at 5:00 P.M. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure/instruction for joining the meeting, remote e-voting and e-voting during the AGM are contained in the Notice of AGM.

5. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e., Friday, 22nd August 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM. The voting rights of the shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company. Shareholders participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Any person holding shares in physical mode or a person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice of the AGM is sent and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he / she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

7. A member may participate at the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast their vote again. Shareholders may note that the facility of e-voting shall be made available at the AGM.

8. The Board of Directors has appointed Shri Sachin Agarwal or in his absence Ms. Shweta Jain, from M/s Agarwal & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizers, for conducting the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

9. Shareholders are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case you have any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or call on: 022-4886 7000 or send a request evoting@nsdl.com.

For and on behalf of
NTPC Limited
Sd/-
(Ritu Arora)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 07.08.2025

Leading the Power Sector

शुल्क की चोट से सहमा कपड़ा उद्योग

अमेरिका की बड़ी खुदरा कंपनियों ने भारत में अपने आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर रोकने को कहा

शाइन जेकब, शालीन डिसूजा और देव चटर्जी
चेन्नई/मुंबई, 7 अगस्त

भारत से आयात पर शुल्क बढ़ाने के अमेरिकी कदम से वस्त्र एवं परिधान निर्यात उद्योग ठहर गया है। वालमार्ट, टारगेट, एमेज़ॉन, टीजेएक्स कंपनीज, गैप इंक और एचएंडएएम सहित सभी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपने आपूर्तिकर्ताओं से कह दिया है कि शुल्क पर तत्स्वीर साफ होने तक ऑर्डर न भेजें।

कंपनियां पहले से मिले ऑर्डर 27 अगस्त से पहले भेजने में जुट गई हैं ताकि खरीदारों पर अतिरिक्त शुल्क न लगे। बाईंग एजेंट्स एसोशिएशन के अध्यक्ष एवं एसएनक्यूएस इंटरनैशनल्स के प्रबंध निदेशक ई विश्वनाथन ने कहा, 'खरीदारों ने हमसे कहा है कि अभी कोई बिल नहीं बनाया जाए। उन्होंने आर्डर से जुड़ी जो भी पूछताछ थी उसे भी रोक दिया है। आयात करने वाली कंपनियों को भारत से आयात रोकने के लिए कहा गया है।'

भारत के कपड़ों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। जनवरी से मई 2025 के दौरान भारत से अमेरिका को 4.59 अरब डॉलर मूल्य के परिधान निर्यात किए गए। पिछले साल जनवरी से मई की तुलना में यह आंकड़ा 13 प्रतिशत से अधिक था। उस समय 4.05 अरब डॉलर के परिधान निर्यात किए गए थे। समूचे 2025 में अमेरिका ने भारत से लगभग 10.8 अरब डॉलर के वस्त्र एवं परिधानों का आयात किया था।

बहरहाल उद्योग जगह से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि ऑर्डर रोकने का मतलब इन्हें रद्द करना या भारत के बजाय दूसरे बाजारों से आयात करना नहीं है। ऑर्डर दूसरे देश को देने का मतलब है कि आपूर्ति के पूरे तंत्र और विनिर्माण को यहां से हटाकर कहीं और ले जाना। इसे ध्यान में रखते हुए वैश्विक कंपनियां फिलाहाल भारतीय बाजार से अपना नाता नहीं तोड़ेंगी। किंटेक्स गारमेंट्स के प्रबंध निदेशक साबु एम जैकब ने कहा, 'सभी कंपनियों ने ऑर्डर रोक दिए हैं क्योंकि शुल्कों में बढ़ोतरी के साथ कीमत यानी प्राइस टैग भी



बदलने होंगे। आर्डर रोकने का मतलब इन्हें रद्द करना नहीं है, बस प्राइस टैग बदलने होंगे।' जैकब ने कहा कि फिलाहाल यह कहना मुश्किल है कि ऑर्डर कब तक रुके रहेंगे, इसलिए हम उत्पादन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या यह है कि अनिश्चितता के कारण आपूर्ति भी नहीं की जा रही है।

विश्वनाथन ने कहा, 'सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे जो देश हमसे होड़ कर रहे थे, उन पर शुल्क कम है। कई ऑर्डर इन देशों में जा

सकते हैं। फिलहाल जो भी ऑर्डर हमारे पास हैं वे हमें 27 अगस्त से पहले भेजने होंगे।' बांग्लादेश पर अमेरिका ने 20 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इंडोनेशिया और कंबोडिया पर 19 प्रतिशत शुल्क है और वियतनाम पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। चीन इस समय अमेरिका को वस्त्र एवं परिधान का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, भारत और बांग्लादेश आते हैं।

जानकारों का कहना है कि ये शुल्क अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50 प्रतिशत गिरावट ला सकते हैं। क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआई) ने अमेरिका द्वारा शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीएमएआई ने इसे भारतीय परिधान निर्यात के लिए एक गंभीर झटका बताया है।

सीएमएआई के अध्यक्ष संतोष कटारिया ने कहा, 'भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क और लगने से भारतीय परिधान उद्योग को कराया ब्रंट का लगेगा। कुल शुल्क 50 प्रतिशत होने पर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के परिधानों की तुलना में भारतीय परिधान की कीमत 30-35 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।' इससे भारतीय माल की मांग कम हो जाएगी।'

19% तक सस्ती हुई झींगा मछली

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 7 अगस्त

मछली पालकों को मिलने वाली झींगा मछली की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 6 से 19 प्रतिशत तक फिसल चुकी हैं। कारोबारियों एवं जानकारों ने कहा कि भारत से होने वाले निर्यात पर भारी अमेरिकी शुल्क लगने की आशंका से झींगा मछली की कीमतें गिरने लगी थीं और पिछले दो दिन में इनमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है।

दाम गिरने से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के झींगा पालकों को ज्यादा मुकसान हो सकता है क्योंकि इन दोनों जा्यों में झींगा मछली का उत्पादन प्रमुख व्यवसाय है।

भारत आम तौर पर अमेरिका को 50 काउंट या उससे भी कम काउंट वाले झींगे निर्यात करता है। 50 काउंट का मतलब 20



ग्राम की झींगा मछली है, जो 1 किलोग्राम में 50 चढ़ जाती है। बड़े काउंट यानी कम वजन वाली झींगा मछली मुख्य रूप से चीन, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और अन्य एशियाई बाजारों में भेजी जाती हैं। इनमें 100, 90, 80, 70 और 60 काउंट की झींगा मछली होती है। इन सभी के दाम गिर गए हैं। व्यापारियों और निर्यातकों से मिले आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को निर्यात की जाने झींगा मछली की सबसे आम किस्म (40 काउंट) की औसत कीमत पिछले एक सप्ताह में लगभग 19 प्रतिशत गिरकर 365 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। कुछ व्यापारियों ने कहा कि झींगे से बनने वाले चारे और दाने के दाम भी कम हो गए हैं क्योंकि आंध्र जैसे कुछ राज्य चाहते हैं कि इस तरह का चारा बेचने वाली कंपनियां झींगा पालकों का डर दूर करने के लिए कीमत घटाएं।

निर्यातकों का कहना है कि 50 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद भारत की झींगा मछली इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन के मुकाबले महंगी हो जाएंगी। यह बात व्यापारियों को नागवार गुजर रही है। उनका कहना है कि इतने ऊंचे शुल्क से 24-25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार दांव पर लग जाएगा। उन्हें लगता है कि जब तक नए बाजारों की तलाश नहीं की जाती है या देसी बाजार मजबूत नहीं होता है तब तक झींगा पालकों को मिलने वाली कीमतें और भी गिर सकती हैं। एक वरिष्ठ उद्योग अधिकारी ने कहा 'झींगे का व्यापार आम तौर पर 90 से 120 दिन में पूरा हो जाता है, जिसमें 30-40 दिन हैचरी में ही निकल जाते हैं। एक बार झींगे के बीज इकट्ठे हो गए तो किसान को पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। इनका उत्पादन बीच में छोड़ने को संभावना न के बराबर होती है।' भारत हर साल दुनिया को करीब 60-62 हजार करोड़ रुपये के समुद्री उत्पाद निर्यात करता है, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत अमेरिका को ही जाते हैं। भारत से होने वाले समुद्री उत्पाद में मात्रा के लिहाज से 41 प्रतिशत और कीमत के हिसाब से 66 प्रतिशत हिस्सा झींगा मछली का ही है।


किसानों के हितों से कोई समझौता...

पृष्ठ 1 का शेप

कपड़ा और रसायन क्षेत्र के निर्यातकों ने आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और शुल्क के प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग मांगा। यह देखा गया कि उच्च शुल्क से लगभग 6 फीसदी उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

घटनाक्रम के जानकार शख्स ने कहा, 'कपड़ा क्षेत्र प्रधान है और शुल्क वृद्धि का सबसे ज्यादा असर इसी क्षेत्र पर पड़ेगा। आम तौर पर ऑर्डर दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं जिससे निर्यात बाजार में बदलाव मुश्किल हो जाता है।'

वस्त्र और रसायन क्षेत्र के निर्यातकों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चल रही राज्य एवं केंद्रीय शुल्कों एवं करों में छूट योजनाओं तथा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बंदरगाह शुल्क घटाने और मौजूदा योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए अनुपालन बोझ को कम करने का भी आग्रह किया है। उद्योग के अनुमान के अनुसार रसायन क्षेत्र के अंतर्गत 20 उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत ने 86.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11.6 फीसदी अधिक है। इस दौरान आयात 45.7 अरब डॉलर रहा। कुल मिलाकर अमेरिका के साथ भारत 40.8 अरब डॉलर के व्यापार अधिशेष में रहा।

<div><div><div></div><div><div>NLC India Limited</div><div>('Navratna' - Government of India Enterprise)</div></div></div><div><div>Regd. Office: No.135, EVR Periyar High Road, Kilpauk, Chennai - 600 010, TAMIL NADU</div><div>Corporate Office: B Block 4, NEWVAU - 600 001, CUDDALORE DISTRICT, TAMIL NADU</div><div>CIN No.: L33000TN1955GOI000507, Website: www.nlcindia.in</div></div><div><div>International Year of Cooperatives</div><div>2025</div><div>Cooperation for Sustainable Development</div></div></div>									
Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025									
Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated			(₹ Crore unless otherwise stated)	
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended		
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,495.60	2,723.15	2,648.73	10,285.78	3,825.61	3,836.00	3,378.17	15,282.96
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional & Rate Regulated Activity)	318.96	243.98	667.07	1,682.76	386.89	914.4	723.88	3,630.69
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional & Rate Regulated Activity)	528.78	1,068.04	730.54	2,857.93	593.60	912.08	821.66	3,696.93
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	368.17	656.23	495.98	1,899.99	839.21	468.46	566.69	2,713.61
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	359.66	663.44	476.79	1,887.26	829.99	476.20	545.93	2,699.82
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64	1,386.64
7	Other Equity excluding Revaluation Reserve	16,438.19	16,078.53	15,084.06	16,078.53	18,124.92	17,336.33	15,683.57	17,336.33
8	Security Premium Account	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Net Worth	17,824.83	17,465.17	16,470.60	17,465.17	19,511.56	18,722.97	17,070.11	18,722.97
10	Paid up Debt Capital	7,544.80	7,524.97	7,674.24	7,524.97	23,282.70	22,392.11	22,194.33	22,392.11
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.42	0.43	0.47	0.43	1.19	1.20	1.30	1.20
13	Debt Service Coverage Ratio	1.10	8.01	2.77	3.32	1.13	2.81	2.24	2.63
14	Capital Redemption Reserve	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07	291.07
15	Debtenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Interest Service Coverage Ratio	7.63	11.73	8.22	8.51	4.79	5.59	7.62	6.99
17	Earnings per Equity Share (of ₹ 10/- each) from continuing operations (before adjustment of Net Regulatory Deferral Balances): Basic and Diluted (in ₹)	1.61	0.94	3.28	8.18	5.02	(0.40)	3.58	20.64
18	Earnings per Equity Share (of ₹ 10/- each) from continuing operations (after adjustment of Net Regulatory Deferral Balances): Basic and Diluted (in ₹)	2.66	4.73	3.58	13.70	6.05	3.38	4.09	19.57

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Unaudited financial results are available on the Stock Exchanges websites at www.nseindia.com & www.bseindia.com and on company's website i.e. www.nlcindia.in



For NLC INDIA LIMITED

Prasanna Kumar Motupalli

Chairman and Managing Director

Place: Chennai

Date : 07.08.2025

Visit our website: www.nlcindia.in

PUBLIC SECTOR IS YOURS : HELP IT TO HELP YOU



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Hindustan Petroleum Corporation Limited

एक महारत्न सीपीएसई | A Maharatna CPSE सीआईएन : L23201MH1952GOI0008858


30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एकल और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(सेवी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार)

परिणामों को निम्नलिखित लिंक या स्कैन के माध्यम से देखा जा सकता है:
<https://www.hindustanpetroleum.com/images/pdf/FinResQ1FY2526.pdf>



बोर्ड के आदेशानुसार
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ताक्षरित
रजनीश नारंग
निदेशक - वित्त
(पूर्णकालिक निदेशक)
डीआईएन - 08188549
दिनांक : 07/08/2025 स्थान : मुंबई



पेट्रोलियम हाउस, 17, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020
वेबसाइट: www.hindustanpetroleum.com | ईमेल: corphqo@hplcl.in



इंडियन रेलवे कंटेरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम - नवरत्न सीपीएसई)
सीआईएन : L74899DL1999GOI01707

पंजीकृत कार्यालय: चौथा तल, टॉवर-डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नोरोजी नगर, नई दिल्ली-110029, भारत
वेबसाइट: www.irctc.com ईमेल आईडी: investors@irctc.com दूरभाष: 011-26181550/51
26वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और लामांश जानकारी की सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित एमसीए और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में इंडियन रेलवे कंटेरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम")** के द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें 26वीं एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
- जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 11 के तहत अनुमति है वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 26वीं एजीएम के आयोजन की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी ऊपर उल्लिखित एमसीए / सेबी परिपत्रों के अनुसार आरटीए / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से सूचना का प्रेषण 7 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र सही पथ सहित उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरीज / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।
- सदस्यों को उनके ईमेल पते पंजीकृत करने, वीसी / ओवीएम के माध्यम से 26वीं एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया सहित ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। जिन सदस्यों के पास भौतिक प्रारूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देना चाहते हैं वे अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग इन कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
- सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
- कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी के रूप में सीडीएसएल की सेवाएँ ली हैं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार **शनिवार, 23 अगस्त, 2025** को कंपनी के चुकता इक्विटी शेयरों में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।
- सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:30 बजे से एजीएम की समाप्ति तक वन-वे लाइव 'वेबकास्ट' के माध्यम से 26वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं।
- 26वीं एजीएम के दौरान वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है वे 26वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी 26वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:—
 - रिमोट ई-वोटिंग **बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी और **शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग **शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी)** के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी;
 - ग) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम **कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार, 23 अगस्त, 2025** को सदस्यों / लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही 26वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा;
 - घ) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और **कट-ऑफ तिथि शनिवार, 23 अगस्त, 2025** तक शेयर धारण करता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर प्लूर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है;
 - च) उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी; और
 - केवाईसी विवरण / ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका:
- कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में रु. 2/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर रु. 1.00/- प्रति शेयर अंतिम लामांश की सिफारिश की है जो 26वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार लामांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती के अधीन होगा। हमें उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लामांश पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के संबंध में कम्प्यूटेशन" के संबंध में एक विस्तृत सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे वेब-लिंक: <https://www.irctc.com/request-to-shareholders-for-updation-of-their-email-address.html> पर क्लिक करके देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया 26वीं एजीएम की सूचना के नोटस देखें।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लामांश हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु **शुक्रवार, 22 अगस्त, 2025 को 'रिक्तों तिथि'** के रूप में निर्धारित किया है, यदि एजीएम में इसे अनुमोदित किया जाता है।
- सूत्री बालिका शर्मा (एम. नं.: 4816 और सी. पी. नं.: 3222), पेशेवर कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए 'जांचकर्ता' नियुक्त किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैथान प्लायरएक्स, मफ्तलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 को भेजी जा सकती है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजे या टोल-फ्री नं. 1800 21 09911 पर कॉल करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में दिए गए सभी नोट्स, विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
हस्ता. /—
(सुमन कालरा)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 7 अगस्त, 2025

[illegible][illegible][illegible]